



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 379]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 23, 1981/अग्रहायण 2, 1903

No. 379]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 23, 1981/AGRAHAYANA 2, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1981

सा० का० वि० 614 (अ).—भारतीय पुलिस सेवा (मर्ती) नियम, 1954 के नियम 7 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति विनियम, 1960 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्—

- (1) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति (संशोधन) विनियम, 1981 है;
- (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में

- (1) विनियम 4 (iii-क) में, परीक्षा में बैठने के तीन प्रयासों, शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे अर्थात्— “और किसी उम्मीदवार को, परीक्षा में बैठने, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उसको उम्मीदवारी निरर्थक प्रयत्न रह जैसी भी

स्थिति हो, की गई परीक्षा में बैठने का एक प्रयास माना जाएगा ”।

- (2) विनियम 11 में,

(क) खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii) में शब्द में प्रयुक्त शब्द “और” हटा दिया जाएगा;

(ख) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा अर्थात्—

“परन्तु यह कि खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख), जैसी भी स्थिति हो, के अधीन निम्नलिखित को छोड़कर कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी :—

- (i) यदि कोई उम्मीदवार इस संबंध में ऐसा लिखित अभ्यावेदन देता चाहे तो उसे यह अवसर दे दिए जाने के बाद, और;
- (ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत अवधि के भीतर दिए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार किए जाने के बाद”

टिप्पणी :— मुख्य विनियमों को निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया है।

- (1) सा० का० वि० संख्या 565 दिनांक 5 अप्रैल, 1966
- (2) सा० का० वि० संख्या 246 (ई) दिनांक 15 अप्रैल, 1966
- (3) सा० का० वि० संख्या 1437 दिनांक 2 नवम्बर, 1966

- (4) सांकांनि० संख्या 319(ई) दिनांक 6 मार्च, 1971
- (5) सांकांनि० संख्या 440(ई) दिनांक 10 अक्टूबर, 1972
- (6) सांकांनि० संख्या 239(ई) दिनांक 9 मार्च, 1973
- (7) सांकांनि० संख्या 122(ई) दिनांक 6 मार्च, 1974
- (8) सांकांनि० संख्या 417(ई) दिनांक 10 अक्टूबर, 1974
- (9) सांकांनि० संख्या 146(ई) 12 मार्च, 1975
- (10) सांकांनि० संख्या 453 दिनांक 8 अप्रैल, 1978
- (11) सांकांनि० संख्या 599(ई) दिनांक 30 दिसम्बर, 1978

[सं० एफ० 11023/1/81-अ०भा०से० (1) - ख]

टी० वी० रामनन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and A. R.)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 1981

G.S.R. 614(E).—In pursuance of rule 7 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the States Governments and the Union Public Service Commission hereby makes the following regulations to further amend the Indian Police Service (Appointment by Competitive Examination) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Police Service (Appointment by Competitive Examination) Amendment Regulations, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Police Service (Appointment by Competitive Examination) Regulations, 1955;

(1) in regulation 4(iii-a) after the words, "three attempts at the examination," the following shall be inserted, namely :—

"and the appearance of a candidate at the examination will be deemed to be an attempt at the examination irrespective of his disqualification or cancellation, as the case may be, of his candidature.";

(2) in regulation 11,

(a) in sub-clause (ii) of clause (b), the word "and" occurring at the end shall be omitted;

(b) after clause (b), the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that no penalty under clause (a) or clause (b) as the case may be, shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him into consideration."

Note :—The principal Regulations have been amended vide.

1. GSR No. 565 dated the 5th April, 1966.
2. GSR No. 246(E) dated the 15th April, 1966.
3. GSR No. 1437 dated the 2nd September, 1966.
4. GSR No. 319(E) dated the 6th March, 1971.
5. GSR No. 440(E) dated the 10th October, 1972.
6. GSR No. 239(E) dated the 9th March, 1973
7. GSR No. 122(E) dated the 6th March, 1974.
8. GSR No. 417(E) dated the 10th October, 1974.
9. GSR No. 146(E) dated the 12th March 1975.
9. GSR No. 453 dated the 8th April, 1978.
11. GSR No. 599(E) dated the 30th December, 1978.

[No. F. 11023/1/81-AIS(I)-B]

T. V. RAMANAN, Jt. Secy.